

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी का परिवर्तनशील रिवरवॉक प्रोजेक्ट कार्यरूप में आगे बढ़ रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 सितम्बर, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपने रिवरवॉक (Riverwalk) प्रोजेक्ट को कार्यरूप देने में, एक कदम आगे बढ़ गई है। यह एक परिवर्तनशील प्रोजेक्ट है, जो डाउनटाउन में आर्थिक संभावना खोलने में मदद करेगी।

इस माह के शुरू में, डाउनटाउन ब्रैम्पटन फ्लड प्रोटेक्शन एन्वायरनमेंटल असेसमेंट (Downtown Brampton Flood Protection Environmental Assessment) को मंजूरी दी गई थी। अब सिटी, सरकारी फंडिंग के आधार पर, एटोबीको क्रीक (Etobicoke Creek) से डाउनटाउन ब्रैम्पटन तक चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ सकती है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन, क्षेत्र में बाढ़ के मौजूदा जोखिम को कम करेगा और रिवरवॉक को कार्यान्वित करने के लिए आधार प्रदान करेगा।

रिवरवॉक प्रोजेक्ट, ब्रैम्पटन डाउनटाउन को दुबारा शक्तिशाली बनाने और इसे स्थिर, स्वस्थ व लचीला बनाने में मदद करेगा। रिवरवॉक का मुख्य उद्देश्य, डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बाढ़ के जोखिम को दूर करने के लिए, नवीन और लंबी-अवधि का समाधान तैयार करके, शहरी वृद्धि और विकास पैदा करना, निवेश को आकर्षित करना और क्षेत्र में पब्लिक जगह का विस्तार और सुधार करना है।

### रिवरवॉक के बारे में

डाउनटाउन ब्रैम्पटन, एटोबीको क्रीक की बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन के अंदर स्थित है। खतरे संबंधी प्रबंधन के लिए प्रांत की नीतियों ने अब तक, विकास के प्रकार और मात्रा को सीमित किया है, जो आज वहां हो सकता है। रिवरवॉक, बाढ़ के जोखिमों को दूर करने और एक नई, खुली शहरी जगह बनाने के लिए दो-भागों वाला समाधान है। यह ब्रैम्पटन के डाउनटाउन को दुबारा शक्तिशाली बनाने और इसे स्थिर, स्वस्थ व लचीला बनाने में मदद करेगा।

डाउनटाउन ब्रैम्पटन में, बाढ़ के मौजूदा जोखिम को दूर करने और नियोजन और विकास पर पाबंदियां लगाने से, रिवरवॉक, दुबारा बनाए गए एटोबीको क्रीक से लेकर क्षेत्र तक विस्तार करता है। यह क्षेत्र एटोबीको क्रीक वैली कॉरिडोर और ट्रेल सिस्टम से जुड़ी, पब्लिक जगहों और पार्कों से घिरा हुआ है। इससे डाउनटाउन में, 23,000 से अधिक नौकरियां पैदा करते हुए और जी.डी.पी. (GDP) पर \$1.4 बिलियन का प्रभाव डालते हुए, 3.6 मिलियन वर्ग फुट की रिहायशी, कमर्शियल और रिटेल जगह खुलने की संभावना है।

आने वाले महीनों में, निवासियों के पास, प्रोजेक्ट के बारे में अपने सुझाव देने का अवसर होगा।

रिवरवॉक के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/riverwalk](http://www.brampton.ca/riverwalk) पर जाएं।

### हवाले

“ग्रीन सिटी होने के तौर पर, जो मज़बूत, लचीला और स्थिर हो, डाउनटाउन ब्रैम्पटन की क्षमता को खोलना, काउंसिल की मुख्य प्राथमिकता है। रिवरवॉक एक परिवर्तनशील प्रोजेक्ट है, जो इन दोनों उद्देश्यों में सहयोग करने में हमारी मदद करेगा। साथ ही, यह बाढ़

के जोखिम को दूर करने के अपने नवीन और प्रभावी समाधान के लिए, विकास और नौकरियां पैदा करने और सभी के आनंद लेने के लिए पब्लिक जगह में सुधार करने के लिए, ब्रैम्पटन को प्रसिद्धि दिलाएगा।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन अवसरों का शहर है, जो जोशीले और विकासशील डाउनटाउन के साथ, रचनात्मक, नवीन और एंटरप्रीनियर संबंधी वातावरण की हिमायत करता है। चूंकि सिटी रिवरवॉक बनाने की ओर आगे बढ़ रही है, हम अधिक नौकरियों और जगहों की ओर दूसरा कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका निवासी आने वाले वर्षों में आनंद ले सकें।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“रिवरवॉक प्रोजेक्ट न केवल डाउनटाउन ब्रैम्पटन में बाढ़ के जोखिम को कम करेगा, बल्कि यह शहरी वृद्धि और विकास पैदा करके और क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करके, अवसरों का शहर बनने की हमारी प्राथमिकता को कार्यरूप देने में, हमारी मदद करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। यह परिवर्तनशील पहलकदमी सुनिश्चित करेगी कि ब्रैम्पटन, यहां रहने और आने वाले, सभी लोगों के लिए स्थिर, स्वस्थ, लचीली और आनंद लेने वाली जगह है।”

- पेट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, वाइस चेयर, पब्लिक वर्क्स एंड इंजीनियरिंग, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन  
घुंघट

“रिवरवॉक, ब्रैम्पटन के लिए एक रोमांचक पहलकदमी है, जो काफी हद तक टर्म ऑफ काउंसिल प्रियोरटीज के मुताबिक है। स्टाफ़, डाउनटाउन को पुनः शक्तिशाली बनाने, हमारे निवासियों के लिए संपूर्ण, स्थिर समुदाय बनाने और नवीनता में ग्लोबल लीडर बनने में सहयोग करने के लिए, रिवरवॉक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)